



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 1979/ कार्तिक 9, 1901

No 446]

NEW DELHI, WEDNESDAY, 31 OCTOBER, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

का. आ. 617(अ). —अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन किया गया निम्नलिखित आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आवेश

भारत निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में संशोधन करने के लिए तारीख 9 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र तथा गुजरात राज्य के राजपत्र में अपनी प्रस्थापनाये प्रकाशित की थी ;

और, निर्वाचन आयोग द्वारा गुजरात राज्य के बारे में इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों तथा सुझावों पर तारीख 27 सितम्बर, 1979 को अहमदाबाद में हुई एक सार्वजनिक बैठक में विचार किया गया था;

निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य के बारे में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे

आदेश में यथादर्शित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करते हुए) एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. उक्त आदेश की अनुसूची 2 में मव संख्या 4-गुजरात के सामने—

- (1) स्तम्भ 6 के नीचे अंक "12" के स्थान पर अंक "13" रखा जाएगा; और
- (2) स्तम्भ 7 के नीचे अंक "25" के स्थान पर अंक "26" रखा जाएगा।

2. उक्त आदेश की अनुसूची 6 में—

(1) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में—

- (1) धन्धका (अ. जा.) में निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "50-गढ़डा" के स्थान पर "50-गढ़डा (अ. जा.)" रखा जाएगा;
- (2) 24-सुरत में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "174-नवसारी" के स्थान पर "174-नवसारी (अ. ज. जा.)" रखा जाएगा।

(2) भाग ख—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में—

- (1) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "50-गढ़डा" के स्थान पर "50-गढ़डा (अ. जा.)" रखा जाएगा;

- (2) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम “174-नवसारी” के स्थान पर “174-नवसारी (अ. ज. जा.)” रखा जाएगा।

श्याम लाल शकधर, भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकृत :  
[सं. 282/गुज./अ.जा.-अ.ज.जा./79]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1979

**S.O. 617(E).**—In pursuance of sub-section (1) of Section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election Commission under clause (d) of sub-section (3) of Section 6 of the Act is hereby published :—

#### ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State of Gujarat on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the State of Gujarat were considered by the Commission at a public sitting held at Ahmedabad on 27th September, 1979;

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the State of Gujarat :—

#### I. In Schedule II of the Order, against item 4-Gujarat—

- (i) Under column 6, the figure “13” shall be substituted for the figure “12”; and
- (ii) Under column 7, the figure “26” shall be substituted for the figure “25”.

#### II. In Schedule VI of the said Order—

##### (1) In Part A—Parliamentary Constituencies—

- (i) In 9-Dhandhuka (SC), in the extent of the constituency, “50-Gadhada (SC)” shall be substituted for “50-Gadhada”; and
- (ii) In 24-Surat, in the extent of the constituency, “174-Navsari (ST)” shall be substituted for “174-Navsari”.

##### (2) In Part B—Assembly Constituencies—

- (i) The serial No. and name of the constituency, “50-Gadhada (SC)” shall be substituted for “50-Gadhada”; and
- (ii) The serial No. and name of the constituency, “174-Navsari (ST)” shall be substituted for “174-Navsari”.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India.

By Order,

[No. 282/GJ/SC-ST/79.]

K. GANESAN, Secretary to the Election Commission of India.